

Deu

Chapter 12

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
אֱלֹהִים יְהוָה נָתַן אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ לַעֲשׂוֹת תִּשְׁמְרוּן אֲשֶׁר וְהַמְשַׁפְּטִים וְהַחֲקִים אֱלֹהִים
एलोहीम यहोवा-ने दिया जिसे में-देश करने मानीगे-तुम जिन्हें और-न्याय विधियाँ ये
H0430 H3068 H5414 H0776 H8104 H4941 H2706 H0428
:הַאֲדָמָה: עַל- תַּיִם אֲתָם אֲשֶׁר- הַיָּמִים כָּל- לְרִשְׁתָּהּ לְךָ אֲבֹתַי
भूमि पर जीवित-हो तुम जब दिनों सब अधिकार-करने-उसे को-तुझ पूर्वजों-तेरे-के
H0127 H3117 H3605 H3423 H0001

“ये विधियाँ और नियम हैं जिनका जीवन भर पालन करने के लिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हें इन नियमों का पालन तब तक करना चाहिए जब तक तुम उस देश में रहो जिसे यहोवा तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर, तुमको दे रहा है।

2
אֲתָם אֲשֶׁר הַגּוֹיִם שָׁם עֲבַדוּ- אֲשֶׁר הַמְקֹמֹת כָּל- אֶת- הָאֲבֹדוֹן אֲבָד
तुम जिन्हें जातियों-ने वहाँ सेवा-की जहाँ स्थानों सब को नष्ट-करोगे-तुम नष्ट-करना
H8033 H5647 H4725 H3605 H0853 H0006 H0006

כָּל- וְתַחַת וְהַנְּבִעוֹת וְעַל- הַהַרְרִים עַל- אֱלֹהֵיהֶם אֶת- אֲתָם יְרִשִׁים
सब और-नीचे टीलों और-पर ऊँचे पहाड़ों पर एलोहीम-उनके की को-उन अधिकार-कर-रहे
H3605 H8478 H1389 H2022 H0430 H0853 H0853 H3423

רָעוּן: עֵץ
हरे-के वृक्ष
H6086

तुम उस प्रदेश को उन राष्ट्रों से लोगे जो अब वहाँ रह रहे हैं। तुम्हें उन सभी जगहों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए जहाँ ये राष्ट्र अपने देवताओं की पूजा करते हैं। ये स्थान ऊँचे पहाड़ों, पहाड़ियों और हरे वृक्षों के नीचे हैं।

3
תִּשְׂרְפוּן וְאֲשֶׁרֵיהֶם מִצִּבְתָּם אֶת- וְשִׁבְרָתָם מִזְבְּחֹתָם אֶת- וְנִתְצָתָם
जलाओगे-तुम और-अशेरों-उनकी स्तंभों-उनके को और-तोड़ोगे-तुम वेदियों-उनकी को और-गिराओगे-तुम
H8313 H0842 H4676 H0853 H7665 H4196 H0853 H5422

הַמְקֹם מִן- שְׁמֵם אֶת- וְאֲבָדְתָם תִּגְדְּעוּן אֱלֹהֵיהֶם וּפְסִלֵי בְּאֵשׁ
स्थान से नाम-उनके को और-नष्ट-करोगे-तुम काटोगे-तुम एलोहीम-उनके-की और-मूर्तियों में-आग
H4725 H8034 H0853 H0006 H1438 H0430 H6456 H0784

הַהָא: וּס
उस
H1931

तुम्हें उनकी वेदियों को नष्ट करना चाहिए और उनके विशेष पत्थरों को टुकड़े—टुकड़े कर देना चाहिए। तुम्हें उनके अशेर स्तम्भों को जलाना चाहिए। उनके देवताओं की मूर्तियों को काट डालना चाहिए और उनके नाम वहाँ से मिटा देना चाहिये।

4
אֱלֹהֵיכֶם: לַיהוָה כִּן תַּעֲשׂוּן לֹא-
एलोहीम-तुम्हारे को-यहोवा ऐसा करोगे-तुम नहीं
H0430 H3068 H3808

“किन्तु तुम्हें यहोवा अपने परमेश्वर की उपासना उस प्रकार नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार वे लोग अपने देवताओं की पूजा करते हैं।

5 כִּי אִם-אֵל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר-יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם מִכָּל-שְׂבִיטֵיכֶם לָשׂוּם רְכִיבָה

क्योंकि केवल पास स्थान जिसे चुनेगा यहोवा एलोहीम-तुम्हारा से-सब से-सब रखने

[H0413](#) [H4725](#) [H0977](#) [H3068](#) [H0430](#) [H3605](#) [H7626](#)

אֶת-שְׁמוֹ שָׁם לְשֹׁכְנֵי תְּדַרְשׁוּ וּבָאתָ שָׁמָּה:

को नाम-अपना वहाँ वहाँ और-आओगे-तू तुम्हें-तुम वास-उसके वहाँ

[H0853](#) [H8034](#) [H8033](#) [H7933](#) [H1875](#) [H0935](#) [H8033](#)

यहोवा तुम्हारा परमेश्वर अपने मन्दिर के लिए तुम्हारे परिवार समूह से विशेष स्थान चुनेगा। वह वहाँ अपना नाम प्रतिष्ठित करेगा। तुम्हें उसकी उपासना करने के लिए उस स्थान पर जाना चाहिए।

6 וְהִבֵּאתֶם וְשָׁמָּה עֲלֵתֵיכֶם וּבְחִיכֶם וְאֵת מַעֲשֵׂרְתֵיכֶם וְאֵת תְּרוּמַת

और-लाओगे-तुम वहाँ होमो-तुम्हारी और-बलिदानों-तुम्हारी और-को और-को दशमांशों-तुम्हारे और-को उठाने-का

[H0935](#) [H8033](#) [H2077](#) [H0853](#) [H4643](#) [H0853](#) [H8641](#)

יְדֻכֶּם וְנָדַרְתֶּם וְנָדַרְתֶּם וּבְכֹרֹת בְּקִרְבְּכֶם וְצֹאנֵיכֶם:

हाथों-तुम्हारे-का और-मन्त्रों-तुम्हारी और-स्वेच्छा-भेंटों-तुम्हारी और-पहिलौठों और-तुम्हारी-के गायों-तुम्हारी-के और-भेड़ों-तुम्हारी-की

[H3027](#) [H5088](#) [H5071](#) [H1062](#) [H1241](#) [H6629](#)

वहाँ तुम्हें अपनी होमबलि, अपनी बलियाँ, दशमांश, अपनी विशेष भेंट, यहोवा को वचन दी गई कोई भेंट, अपनी स्वेच्छा भेंट और अपने मवेशियों के झुण्ड एवं रेवड़ के पहलौठे बच्चे लाने चाहिए।

7 וְאֶכְלֶתֶם-שָׁם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְשָׂמַחְתֶּם בְּכָל-מְשָׁלַח

और-खाओगे-तुम वहाँ के-सामने यहोवा एलोहीम-तुम्हारे और-आनन्दित-होओगे-तुम में-सब कार्य

[H0398](#) [H8033](#) [H6440](#) [H3068](#) [H0430](#) [H8055](#) [H3605](#)

יְדֻכֶּם אֶתֶם וּבְתֵיכֶם אֲשֶׁר בְּרַכָּה יְהוָה אֱלֹהֵיךָ:

हाथों-तुम्हारे-के तुम और-घरानों-तुम्हारे जिसमें आशीर्वाद-दिया-तुझे यहोवा-ने एलोहीम-तेरे

[H3027](#) [H0398](#) [H1288](#) [H3068](#) [H0430](#)

तुम और तुम्हारे परिवार वहाँ भोजन करेंगे और यहोवा तुम्हारा परमेश्वर वहाँ तुम्हारे साथ होगा। जिन अच्छी चीजों के लिये तुमने काम किया है उसका भोग तुम करोगे, क्योंकि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको आशीर्वाद दिया है।

8 לֹא תַעֲשׂוּן כְּכֹל אֲשֶׁר אָנֹכְנוּ עֹשִׂים הַיּוֹם אִישׁ כָּל-הַיּוֹשֵׁר

नहीं करोगे-तुम जैसा-सब जो हम कर-रहे-हैं यहाँ आज आदमी सही

[H3808](#) [H3605](#) [H0587](#) [H6311](#) [H3117](#) [H0376](#) [H3605](#) [H3477](#)

בְּעֵינָיו: מֵ-אֲרָבִים-אִפְּנֵי

में-आँखों-अपनी

“उस समय तुम्हें उसी प्रकार उपासना करते नहीं रहना चाहिए जिस प्रकार हम उपासना करते आ रहे हैं। अभी तक हममें से हर एक जैसा चाहे परमेश्वर की उपासना कर रहा था।

9 כִּי לֹא-בָאתֶם עַד-עַתָּה אֵל-הַמְנוּחָה וְאֵל-הַנְּחִלָּה אֲשֶׁר-יָהוּהָ אֱלֹהֵיךָ

क्योंकि नहीं आए-तुम तक अब पास विश्राम और-पास मीरास जो मीरास-दे-रहा-है एलोहीम-तेरा

[H3808](#) [H0935](#) [H5704](#) [H6258](#) [H0413](#) [H4496](#) [H0413](#) [H5159](#) [H3068](#) [H0430](#)

נָתַן לָךְ: כֹּה-תִּזְנֶה

दे-रहा-है को-तुझ

[H5414](#)

क्यों? क्योंकि अभी तक हम उस शान्त देश में नहीं पहुँचे थे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है।

10 וְעַבְרַתְּם אֶת-הַיַּרְדֵּן וְיִשְׁבַתֶּם בְּאֶרֶץ אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם מִנְחִיל

और-पार-करोगे-तुम को यर्दन और-बसोगे-तुम में-देश जो यहोवा एलोहीम-तुम्हारा मीरास-दे-रहा-है

[H0853](#) [H3383](#) [H3427](#) [H0776](#) [H3068](#) [H0430](#) [H5157](#)

אֶתְכֶם וְהִנִּיחַ לְכֶם מְכֹל-אִיבֵיכֶם מִסִּבִּיב וְיִשְׁבַתֶּם-בָּטָח:

को-तुम और-आराम-देगा और-सब शत्रुओं-तुम्हारे से-चारों-ओर और-बसोगे-तुम सुरक्षित

[H0853](#) [H5117](#) [H3605](#) [H0341](#) [H5439](#) [H3427](#) [H0983](#)

लेकिन तुम यरदन नदी को पार करोगे और उस देश में रहोगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। वहाँ यहोवा तुम्हें सभी शत्रुओं से चैन से रहने देगा और तुम सुरक्षित रहोगे।

שָׁמָּה वहाँ H8033	שָׁמָּה वहाँ H8033	שְׁמוֹ नाम-अपना H8034	בְּשֵׁן बसाने H7931	בּוֹ में-उस H4030	אֱלֹהֵיכֶם एलोहीम-तुम्हारा H4030	יְהוָה यहोवा H3068	יִבְחַר चुनेगा H0977	אֲשֶׁר- जिसे H4725	הַמְּקוֹם स्थान H4725	וְהָיָה और-होगा H1961	11
מֵעֲשָׂרְתֵיכֶם दशमांशों-तुम्हारे H4643	וּבְחֵיכֶם और-बलिदानों-तुम्हारी H2077	עוֹלֹתֵיכֶם होमों-तुम्हारी H0853	אֲתֶכֶם को-तुम H6680	מִצְוָה आज्ञा-दे-रहा H0595	אֲנֹכִי मैं H3605	אֲשֶׁר जो H3605	כָּל- सब H0853	אֵת को H0935	תָּבִיאֻ लाओगे-तुम H0935		
	לַיהוָה: को-यहोवा H3068	תִּדְרֹ मानोगे-तुम H5087	אֲשֶׁר जो H5088	נְדָרֵיכֶם मन्त्रों-तुम्हारी-की H4005	מִבְּחָר उत्तम H3605	וְכֹל- और-सब H3027	יָדְכֶם हाथों-तुम्हारे-का H8641	וּתְרַמֵּת और-उठाने-का H8641			

तब यहोवा अपने लिये विशेष स्थान चुनेगा वह वहाँ अपना नाम प्रतिष्ठित करेगा और तुम उन सभी चीजों को वहीं लाओगे जिनके लिए मैं आदेश दे रहा हूँ। वहीं तुम अपनी होमबलि, अपनी बलियाँ, दशमांश, अपनी विशेष भेंट, यहोवा को वचन दी गई भेंट, अपनी स्वेच्छा भेंट और अपने मवेशियों के झुण्ड एवं रेवड़ का पहलौठा बच्चा लाओ।

וּבְנֵיכֶם और-पुत्रियों-तुम्हारी H1323	וּבְנֵיכֶם और-पुत्रों-तुम्हारे H0430	אִתְּכֶם तुम H3068	אֱלֹהֵיכֶם एलोहीम-तुम्हारे H6440	יְהוָה यहोवा H8055	לְפָנַי के-सामने H8055	וּשְׁמֹחָתְכֶם और-आनन्दित-होओगे-तुम H8055	12			
חֵלֶק भाग H0369	לּוֹ को-उस H8179	אֵין नहीं H8179	כִּי क्योंकि H8179	בְּשַׁעְרֵיכֶם में-फाटकों-तुम्हारे H3881	אֲשֶׁר जो H0519	וְהָלַי और-लेवी H0519	וְעַבְדֵיכֶם और-दासियों-तुम्हारी H5650	וְעַבְדֵיכֶם और-दासों-तुम्हारे H5650		
						וּנְחֹלָה साथ-तुम्हारे H0854	וּנְחֹלָה और-मीरास H5159			

उस स्थान पर तुम अपने सभी लोगों, अपने बच्चों, सभी सेवकों और अपने नगर में रहने वाले सभी लेवीवंशियों के साथ इकट्ठे होओ। (ये लेवीवंशी अपने लिए भूमि का कोई भाग नहीं पाएंगे।) यहोवा अपने परमेश्वर के साथ वहाँ आनन्द मनाओ।

תִּרְאֶה: देखोगे-तू H7200	אֲשֶׁר जो H4725	מְקוֹם स्थान H3605	בְּכָל- में-सब H3605	עַל־תֵּינִי होमों-अपनी H5927	תַּעֲלֶה चढ़ाओ H6435	פֶּן- कहीं H6435	לְךָ का-अपने H8104	הַשְּׂמֵר सावधान-रह H8104	13
---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	----

सावधानी बरतो कि तुम अपनी होमबलियों को जहाँ देखो वहाँ न चढ़ा दो।

עַל־תֵּינִי होमों-अपनी H5927	תַּעֲלֶה चढ़ाएगा-तू H8033	שָׁמָּה वहाँ H7626	שְׁבָטֶיךָ गोत्रों-तेरे-से H0259	בְּאַחַד में-एक H3068	יְהוָה यहोवा H0977	יִבְחַר चुनेगा H4725	אֲשֶׁר- जिसे H4725	בְּמִקְוָם में-स्थान H4725	אִם- केवल H4725	כִּי क्योंकि H4725	14
			מִצְוָה: आज्ञा-दे-रहा-तुझे H6680	אֲנֹכִי मैं H0595	אֲשֶׁר जो H3605	כָּל- सब H3605	תַּעֲשֶׂה करेगा-तू H8033	וְשָׁמָּה और-वहाँ H8033			

तुम्हारे परिवार समूहों में से किसी एक के क्षेत्र में यहोवा अपना विशेष स्थान चुनेगा। वहाँ अपनी होमबलि चढ़ाओ और तुम्हें बताए गए सभी अन्य काम वहीं करो।

אֱלֹהֵיכֶם एलोहीम-तेरे H0430	יְהוָה यहोवा-के H3068	כְּבָרְכֶת जैसे-आशीर्वाद H1293	בְּשָׂר मांस H1320	וְאֶכְלֶתָּ और-खाएगा-तू H0398	וַתִּזְבַּח बलि-दोगे-तू H2076	נִפְשֶׁךָ प्राण-तेरे-की H5315	אֹתָהּ इच्छा H0185	בְּכָל- में-सब H3605	רַק केवल H7535	15
וְכֹאֲלֵי: और-जैसे-हिरन H0354	כְּצִבִּי जैसे-चिकारा H0398	יֵאֲכָלְנָה खाएगा-उसे H2889	וְהִטְהַרְתָּ और-शुद्ध H2931	הַשְּׂמֵא अशुद्ध H8179	שְׁעָרֶיךָ फाटकों-तेरे H3605	בְּכָל- में-सब H3605	לְךָ को-तुझे H5414	נָתַן दिया H5414	אֲשֶׁר जो H5414	

“जिस किसी जगह तुम रहो तुम नीलगाय या हिरन जैसे अच्छे जानवरों को मारकर खा सकते हो। तुम उतना माँस खा सकते हो जितना तुम चाहो, जितना यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तम्हें दे। कोई भी व्यक्ति इस माँस को खा सकता है, चाहे वह पवित्र हो या अपवित्र।

16	רַק केवल	הָרֶם लहू	לֹא नहीं	תֹּאכְלוּ खाओगे-तुम	עַל- पर	הָאָרֶץ पृथ्वी	הַשָּׂפְכָנוּ बहाओगे-उसे-तुम	כַּמִּים: जैसे-पानी
	H7535	H1818	H3808	H0398		H0776	H8210	H4325

लेकिन तुम्हें खून नहीं खाना चाहिए। तुम्हें खून को पानी की तरह जमीन पर बहा देना चाहिए।

17	לֹא- नहीं	תּוֹכְלוּ सकोगे-तू	לֶאֱכֹל खाने	בְּשַׁעְרֵי में-फाटकों-तेरे	מֵעֶשֶׂר दशमांश	הַנָּגֶף अन्न-तेरे-का	וְתִירְשָׁן और-दाखरस-तेरी	וַיִּצְהָרְךָ और-तेल-तेरा	וּבְכֹרֹת और-पहिलौठों
	H3808	H3201	H0398	H8179	H4643	H1715	H8492	H3323	H1062
	בְּקָרְךָ गायों-तेरी-के	וְצֹאֲנֶךָ और-भेड़ों-तेरी-की	וְכָל- और-सब	נְדָרֶיךָ मन्नतों-तेरी	אֲשֶׁר जो	תִּדְבָר मानोगे-तू	וְנִדְבָתֶיךָ और-स्वेच्छा-भेंटों-तेरी	וְתַרְוֹמֹת और-उठाने-का	
	H1241	H6629	H3605	H5088		H5087	H5071	H8641	
	יָדְךָ हाथ-तेरे-का								H3027

“कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें उन जगहों पर नहीं खाना चाहिए जहाँ तुम रहते हो। वे चीजें ये हैं: परमेश्वर के हिस्से के तुम्हारे अन्न का कोई भाग, उसके हिस्से की नई दाखमधु और तेल का कोई भाग, तुम्हारे मवेशियों के झुण्ड या रेवड़ का पहलौठा बच्चा, परमेश्वर को वचन दी गई कोई भेंट, कोई स्वेच्छा भेंट या कोई भी परमेश्वर की अन्य भेंट।

18	כִּי क्योंकि	אִם- केवल	לְפָנַי के-सामने	יְהוָה यहोवा	אֱלֹהֶיךָ एलोहीम-तेरे	תֹּאכְלוּ खाएगा-उसे-तू	בְּמִקְוֵם में-स्थान	אֲשֶׁר जिसे	יִבְחַר चुनेगा	יְהוָה यहोवा	אֱלֹהֶיךָ एलोहीम-तेरा
			H6440	H3068	H0430	H0398	H4725		H0977	H3068	H0430
	בֹּ में-उस	אֶתָּה तू	וּבְנֶךָ और-पुत्र-तेरा	וּבְתוּכָהּ और-पुत्री-तेरी	וְעַבְדְּךָ और-दास-तेरा	וְאִמְתְּךָ और-दासी-तेरी	וְחִלְוֵי और-लेवी	אֲשֶׁר जो	בְּשַׁעְרֵי में-फाटकों-तेरे		
			H1323	H5650	H0519	H3881	H8179				
	וְשִׂמְחָתְךָ और-आनन्दित-होगा-तू	לְפָנַי के-सामने	יְהוָה यहोवा	אֱלֹהֶיךָ एलोहीम-तेरे	בְּכָל- में-सब	מְשָׁלָח कार्य	יָדְךָ हाथ-तेरे-का				H3027
	H8055	H6440	H3068	H0430	H3605						

तुम्हें उन भेंटों को केवल उसी स्थान पर खाना चाहिए जहाँ यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ हो। अर्थात् यहोवा तुम्हारा परमेश्वर जिस स्थान को चुने। तुम्हें वहीं जाना चाहिए और अपने पुत्रों, पुत्रियों, सभी सेवकों और तुम्हारे नगर में रहने वाले लेवीवंशियों के साथ मिलकर खाना चाहिए। यहोवा अपने परमेश्वर के साथ वहाँ आनन्द मनाओ। जिन चीजों के लिए काम किया है उनका आनन्द लो।

19	הַשְּׂמֵר सावधान-रह	לְךָ- का-अपने	פָּן- कहीं	תַּעֲזֹב त्यागो	אֶת- को	חִלְוֵי लेवी	כָּל- सब	יְמֵיךָ दिनों-अपने	עַל- पर	אֶדְמֹתֶיךָ: भूमि-तेरी	ס- —
	H8104	H6435	H0853	H3881	H3605	H3117	H0127				

ध्यान रखो कि इन भोजनों को लेवीवंशियों के साथ बाँटकर खाओ। यह तब तक करो जब तक अपने देश में रहो।

20	כִּי- जब	יִבְחַרְבָּ बढ़ाएगा	יְהוָה यहोवा	אֱלֹהֶיךָ एलोहीम-तेरा	אֶת- को	גְּבוּלְךָ सीमा-तेरी	כַּאֲשֶׁר जैसा	הִבְרַר- कहा	לְךָ से-तुझ	וְאָמַרְתָּ और-कहेगा-तू	אֲכָלָה खाई-मैं
		H7337	H3068	H0430	H0853	H1366	H1696			H0559	H0398
	בְּשֶׁךְ मांस	כִּי- जब	תִּאֲוָה चाहती-है	נַפְשְׁךָ प्राण-तेरा	לֶאֱכֹל खाने	בְּשֶׁךְ मांस	בְּכָל- में-सब	אֶת इच्छा	נַפְשְׁךָ प्राण-तेरे-की	תֹּאכְלוּ खाएगा-तू	בְּשֶׁךְ: मांस
	H1320		H0183	H5315	H0398	H1320	H3605	H0185	H5315	H0398	H1320

“यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने यह वचन दिया है कि वह तुम्हारे देश की सीमा को और बढ़ाएगा। जब यहोवा ऐसा करेगा तो तुम उसके चुने हुए विशेष निवास से दूर रह सकते हो। यदि यह अत्यधिक दूर हो और तुम्हें माँस की भूख है तो तुम किसी भी प्रकार के माँस को, जो तुम्हारे पास है खा सकते हो। तुम यहोवा के दिये झुण्ड और रेवड़ में से किसी भी जानवर को मार सकते हो। यह वैसे ही करो जैसा करने का आदेश मैंने दिया है। यह माँस, तुम जब चाहो जहाँ भी रहो, खा सकते हो।

שָׁמַיִם	שְׁמוֹ	לְשׁוֹמְרֵי	אֱלֹהֵינוּ	יְהוָה	יְבָרַךְ	אֲשֶׁר	הַמְּקוֹם	מִמֶּנּוּ	יָרֶחַק	כִּי
वहाँ	नाम-अपना	रखने	एलोहीम-तेरा	यहोवा	चुनेगा	जिसे	स्थान	से-तुझ	दूर-होगा	जब
H8033	H8034		H0430	H3068	H0977		H4725		H7368	
צִוִּיתָ	כְּאֲשֶׁר	לְ	יְהוָה	נָתַן	אֲשֶׁר	וּמִצְאֵנָה	מִמְּקָרָהּ	וּבְבִלְתִּי		
आज्ञा-दी-मैंने-तुझे	जैसा	को-तुझ	यहोवा-ने	दिया	जो	और-से-भेड़ों-तेरी	से-गायों-तेरी	और-बलि-देगा-तू		
H6680			H3068	H5414		H6629	H1241	H2076		
					נִפְשָׁהּ :	אֶת	בְּכֹל	בְּשַׁעֲרֵיהֶן	וְאֶכְלָתִי	
					प्राण-तेरे-की	इच्छा	में-सब	में-फाटकों-तेरे	और-खाएगा-तू	
					H5315	H0185	H3605	H8179	H0398	

“यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने यह वचन दिया है कि वह तुम्हारे देश की सीमा को और बढ़ाएगा। जब यहोवा ऐसा करेगा तो तुम उसके चुने हुए विशेष निवास से दूर रह सकते हो। यदि यह अत्यधिक दूर हो और तुम्हें माँस की भूख है तो तुम किसी भी प्रकार के माँस को, जो तुम्हारे पास है खा सकते हो। तुम यहोवा के दिये झुण्ड और रेवड़ में से किसी भी जानवर को मार सकते हो। यह वैसे ही करो जैसा करने का आदेश मैंने दिया है। यह माँस, तुम जब चाहो जहाँ भी रहो, खा सकते हो।

וְהַטְּהֹרֶה	הַטְּמֵא	תֹאכְלֵנּוּ	כִּן	הָאֵיל	וְאֶת-	הַצִּבִּי	אֶת-	יֶאֱכַל	כְּאֲשֶׁר	אֵיךְ
और-शुद्ध	अशुद्ध	खाएगा-उसे-तू	ऐसे	हिरन	और-को	चिकारा	को	खाया-जाता-है	जैसे	बस
H2889	H2931	H0398		H0354	H0853		H0853	H0398		H0389
								יֶאֱכְלֵנּוּ :	יַחְדָּו	
								खाएंगे-उसे	एक-साथ	
								H0398		

तुम इस माँस को वैसे ही खा सकते हो जैसे नीलगाय और हिरन का माँ खाते हो। कोई भी व्यक्ति यह कर सकता है चाहे वे लोग पवित्र हो या अपवित्र हो।

הַנֶּפֶשׁ	תֹאכְלֵ	וְלֹא-	הַנֶּפֶשׁ	הוּא	הָרֶגֶם	כִּי	הָרֶגֶם	אֶכְלֵ	לְבִלְתִּי	חֹזֵק	רַק
प्राण	खाओ	और-नहीं	प्राण	वह	लहू	क्योंकि	लहू	खाना	के-लिए-नहीं	दृढ़-रह	केवल
H5315	H0398	H3808	H5315	H1931	H1818		H1818	H0398	H1115	H2388	H7535
									הַבָּשָׂר :	עִם-	
									मांस-के	साथ	
									H1320		

किन्तु निश्चय ही खून न खाओ। क्यों? क्योंकि खून में जीवन है और तुम्हें वह माँस नहीं खाना चाहिए जिसमें अभी जीवन हो।

כַּמֵּיִם :	תִּשְׁפְּכֵנּוּ	הָאָרֶץ	עַל-	תֹאכְלֵנּוּ	לֹא
जैसे-पानी	बहाओ-उसे-तू	पृथ्वी	पर	खाओ-उसे-तू	नहीं
H4325	H8210	H0776		H0398	H3808

खून मत खाओ। तुम्हें खून को पानी की तरह जमीन पर डाल देना चाहिए।

בְּעֵינַי	הִנֵּה	כִּי-	אֶחָרִיף	וְלִבְנֵי	לְ	יֵטֵב	לְמַעַן	תֹאכְלֵנּוּ	לֹא
में-आँखों	सही	करीगे-तू	बाद-तेरे	और-का-पुत्रों-तेरे	का-तेरा	भला-हो	ताकि	खाओ-उसे-तू	नहीं
H3477						H3190	H4616	H0398	H3808
									יְהוָה :
									यहोवा-की
									H3068

तुम्हें वह सब कुछ करना चाहिए जिसे परमेश्वर उचित ठहराता है। इसलिए खून मत खाओ। तब तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का भला होगा।

הַמְּקוֹם	אֶל-	וּבְאֵת	תִּשָּׂא	וּבְנֵדְרֵיהֶן	לְ	יְהוּי	אֲשֶׁר-	קִדְשֵׁיהֶן	רַק
स्थान	पास	और-आएगा-तू	उठाएगा-तू	और-मन्त्रों-तेरी	की-तेरी	होंगी	जो	पवित्र-वस्तुओं-तेरी	केवल
H4725	H0413	H0935	H5375	H5088		H1961		H6944	H7535
								יְהוָה :	אֲשֶׁר-
								यहोवा	जिसे
								H3068	H0977

“जिन चीजों को तुमने अर्पित किया है और जो तुम्हारी वचन दी गई भेंटें हैं उन्हें उस विशेष स्थान पर ले जाना जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर चुनेगा।

וְבָרִיתְךָ וְעֲשִׂיתָ עִלְתִּיךָ הַבָּשָׂר וְהָרִים עַל-מִזְבֵּחַ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְרַם-בְּלִידָנוֹ-תֵּרִי-כָּא
 और-लहू एलोहीम-तेरे यहोवा-की वेदी पर और-लहू मांस होमों-तेरी और-चढ़ाएगा-तू
[H2077](#) [H1818](#) [H0430](#) [H3068](#) [H4196](#) [H1818](#) [H1320](#)

יִשְׁפָּךְ עַל-מִזְבֵּחַ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְהַבָּשָׂר וְהַתְּאֵבִלִּים :
 बहाया-जाएगा पर वेदी यहोवा-की वेदी और-मांस एलोहीम-तेरे यहोवा-की वेदी पर
[H0398](#) [H1320](#) [H0430](#) [H3068](#) [H4196](#) [H8210](#)

तुम्हें अपनी होमबलि वहीं चढ़ानी चाहिए। अपनी होमबलि का मांस और रक्त यहोवा अपने परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाओ। तब तुम मांस खा सकते हो।

שָׁמַר וְשָׁמַעְתָּ אֶת-כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְךָ לַמַּעַן יֵיטֵב שָׁמַר
 मानना और-सुनना को सब वचनों इन जो मैं आज़ा-दे-रहा-तुझे ताकि भला-हो
[H3190](#) [H4616](#) [H6680](#) [H0595](#) [H0428](#) [H1697](#) [H3605](#) [H0853](#) [H8085](#) [H8104](#)

לָךְ וּלְבָנֶיךָ אַחֲרָיִךְ עַד-עוֹלָם כִּי תַעֲשֶׂה הַטּוֹב וְהַיָּשָׁר בְּעֵינָי יְהוָה
 का-तेरा और-का-पुत्रों-तेरे और-तेरे और-का-पुत्रों-तेरे और-का-पुत्रों-तेरे और-का-पुत्रों-तेरे
[H3068](#) [H3477](#) [H5769](#) [H5704](#)

אֱלֹהֶיךָ :
 एलोहीम-तेरे-की
[H0430](#)

जो आदेश मैं दे रहा हूँ उनके पालन में सावधान रहो। जब तुम वह सब कुछ करते हो जो अच्छा है और ठीक है, जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर को प्रसन्न करता है तब हर चीज तुम्हारे लिए तथा तुम्हारे वंशजों के लिए सदा भला रहेगा।

כִּי-יִכָּרֵת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת-הַגּוֹיִם אֲשֶׁר אַתָּה תָּוּ בָּא-שָׁמַר לְרִשְׁתָּ
 जब काट-डालेगा यहोवा एलोहीम-तेरा को एलोहीम-तेरा को जिनके-पास जातियों को-उनके
[H3423](#) [H8033](#) [H0935](#) [H0853](#) [H0430](#) [H3068](#) [H3772](#)

אוֹתָם מִפְּנֵיךָ וְיִרְשָׁתָּ אֹתָם וְיִשְׁבְּתָּ בְּאַרְצָם :
 को-उन से-सामने-तेरे और-अधिकार-करोगे-तू और-अधिकार-करोगे-तू और-अधिकार-करोगे-तू और-अधिकार-करोगे-तू
[H0776](#) [H3427](#) [H0853](#) [H3423](#) [H6440](#) [H0853](#)

“जब तुम दूसरे राष्ट्रों के पास अपनी धरती को लेने जाओगे तो, यहोवा उन्हें हटने के लिए विवश करेगा तथा उन्हें नष्ट करेगा। तुम वहाँ जाओगे और उनसे भूमि लोगे। तुम उनका भूमि पर रहोगे।

הַשְׁמָר לָךְ
 सावधान-रह सावधान-रह सावधान-रह सावधान-रह सावधान-रह सावधान-रह सावधान-रह सावधान-रह सावधान-रह
[H1875](#) [H6435](#) [H6440](#) [H8045](#) [H5367](#) [H6435](#) [H8104](#)

לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם
 को-एलोहीम-उनके को-एलोहीम-उनके को-एलोहीम-उनके को-एलोहीम-उनके को-एलोहीम-उनके को-एलोहीम-उनके को-एलोहीम-उनके को-एलोहीम-उनके
[H0430](#) [H0853](#) [H0428](#) [H5647](#) [H0559](#) [H0430](#)

אֲנִי :
 मैं भी
[H0589](#) [H1571](#)

किन्तु ऐसा हो जाने के बाद सावधान रहो! वे राष्ट्र जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन देवताओं के पास सहायता के लिए मत जाओ! यह सीखने की कोशिश न करो कि वे अपने देवताओं की पूजा कैसे करते हैं। वे जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करने के बारे में न सोचो।

לֹא-תַעֲשֶׂה לָּךְ לֹא-תַעֲשֶׂה לָּךְ לֹא-תַעֲשֶׂה לָּךְ לֹא-תַעֲשֶׂה לָּךְ לֹא-תַעֲשֶׂה לָּךְ לֹא-תַעֲשֶׂה לָּךְ
 नहीं करोगे-तू नहीं करोगे-तू नहीं करोगे-तू नहीं करोगे-तू नहीं करोगे-तू नहीं करोगे-तू
[H8130](#) [H3068](#) [H8441](#) [H3605](#) [H0430](#) [H3068](#) [H3808](#)

עָשׂוּ לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם לְאֵלֹהֵיכֶם
 की-उन्होंने की-उन्होंने की-उन्होंने की-उन्होंने की-उन्होंने की-उन्होंने की-उन्होंने की-उन्होंने
[H0784](#) [H8313](#) [H1323](#) [H0853](#) [H0853](#) [H1571](#) [H0430](#)

לְאֵלֹהֵיכֶם :
 को-एलोहीम-अपने
[H0430](#)

तुम यहोवा अपने परमेश्वर की वैसे उपासना नहीं करोगे जैसे वे अपने देवताओं की करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने पूजा में सब तरह की बुरी चीजें करते हैं जिनसे यहोवा घृणा करता है। वे अपने देवताओं की बलि के लिए अपने बच्चों को भी जला देते हैं।

תָּסַף	לֹא-	לַעֲשׂוֹת	תִּשְׁמְרוּ	אֵתוֹ	אֶתְכֶם	מִצַּוָּה	אֲנֹכִי	אֲשֶׁר	הַדְּבָר	כָּל-	אֵת	32
जोड़ो	नहीं	करने	मानो	को-उस	को-तुम	आज्ञा-दे-रहा	मैं	जो	वचन	सब	को	
H3254	H3808		H8104	H0853	H0853	H6680	H0595		H1697	H3605	H0853	
							פ	מִמֶּנּוּ :	תִּגְרַע	וְלֹא	עָלָיו	
							—	से-उस	घटाओ	और-नहीं	पर-उस	
									H1639	H3808		

“तुम्हें उन सभी कामों को करने के लिए सावधान रहना चाहिए जिनके लिए मैं आदेश देता हूँ। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसमें न तो कुछ जोड़ो, न ही उसमें से कुछ कम करो।